



Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 50-2018] CHANDIGARH, TUESDAY, DECEMBER 11, 2018 (AGRAHAYANA 20, 1940 SAKA)

PART I-B

Notifications by Commissioners and Deputy Commissioners

हरियाणा सरकार

न्याय प्रशासन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 अक्टूबर, 2018

सख्यां 4725/पी०एल०ए०.— चूंकि, हरियाणा सरकार के राज्यपाल के विचार में आया है कि कतिपय स्थानों में अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिये पूर्वोपयुक्त किये जाने समीचीन है।

इसलिये, अब, भारत सरकार राजपत्र दिनांक 27.05.1967 में प्रकाशित भारत सरकार, गृह मन्त्रालय, अधिसूचना सख्यां का. आ. 1788 दिनांक 19.05.1967 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923(1923 का केन्द्रीय अधिनियम 19), की धारा 2 के खण्ड (घ) तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग चण्डीगढ़ के यादि 30/1/2018-5 जे. जे. (1)/दिनांक 26.07.2018 द्वारा राज्य के सभी उपायुक्तों को अधिसूचना जारी करने की शक्तियां प्रदान करने के फलस्वरूप प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट स्थान को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिये प्रतिषिद्ध स्थान के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात्:-

अनुसूची

| स्थान का नाम | परिक्षेत्र तथा अन्य विवरण |
|--|--|
| 1 | 2 |
| गांव नागल, तह० जगाधरी कुल ऐरिया 12 कनाल, सेल डीड नं० 7039 दिनांक 22.12.2010, खेवट-50, खतौनी-88, मुसतिल-8, किला-14/2,17 और 24 | गांव नागल, तह० जगाधरी, जिला यमुनानगर, (हरियाणा) पिन-135001 |

गिरिश अरोरा,
उपायुक्त यमुनानगर।

HARYANA GOVERNMENT
ADMINISTRATION & JUSTICE DEPARTMENT

Notification

The 22nd October, 2018

No. 4725/P.L.A.— Whereas the Governor of Haryana considers it expedient that recautions shall be taken to prevent the entry of unauthorized persons into certain places;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Central Act 19 of 1923) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 1788, dated the 19.05.1967, published in the Government of India Gazette dated 27.05.1967 and power conferred to all Deputy Commissioner by the Additional Chief Secretary to Government of Haryana, Administrative & Justice Department Haryana, Chandigarh notification issue by to delegated the power by the governor of Haryana hereby declares the place specified in column 1 of the Schedule given below to be a prohibited place for the purposes of the said Act, namely:-

SCHEDULE

| Name of Place | Locality and other description |
|--|---|
| 1 | 2 |
| Vill. Nagal, Teh. Jagadhri, Area of Installation-IP-2 Station 12Kanal, Sale Deed No. 7039 Dt. 22-12-2010, Khewat-50, Khattouni-88, Mustil-8, Killa-14/2, 17&24 | Vill. Nagal, Teh. Jagadhri, Distt. Yamuna Nagar (Haryana) Pin- 135001 |

GIRISH ARORA,
Deputy Commissioner,
Yamun Nagar.